

Lev

Chapter 21

Hindi Interlinear

Reference: Hindi Easy-to-Read Version

1
לְגַפְּשׁוֹ אֶלְהֵם וְאָמַרְתָּ אֲהָרֹן בְּנֵי הַכֹּהֲנִים אֵל-אָמַר מֹשֶׁה אֶל-יְהוָה וַיֹּאמֶר
प्राण-के-लिए उनसे और-कह हारून पुत्रों याजकों से- कह मूसा से- यहोवा और-बोला
H5315 H0413 H0559 H0175 H3548 H0413 H0559 H4872 H0413 H3068 H0559
:בְּעֵמִוּי יִטְמָא לֹא-
अपने-लोगों-में अशुद्ध-हो नहीं-
H3808

यहोवा ने मूसा से कहा, "ये बातें हारून के याजक पुत्रों से कहो: किसी मरे व्यक्ति को छूकर याजक अपने को अशुद्ध न करें।

2
וְלֹאֲבִיו וְלֹאֲמוֹ לְאִמּוֹ הַקָּרֵב לְשֹׁאֲרוֹ אִם-כִּי
और-अपने-पिता-के-लिए अपनी-माता-के-लिए उसके निकट अपने-निकट-संबंधी के-अलावा- परन्तु
H0001 H0517 H0413 H7138 H7607
:וְלֹאֲחָיו וְלִבְתּוֹ וְלִבְנוֹ
और-अपने-भाई-के-लिए और-अपनी-पुत्री-के-लिए और-अपने-पुत्र-के-लिए
H0251 H1323

किन्तु यदि मरा हुआ व्यक्ति उसके नजदीकी सम्बन्धियों में से कोई है तो वह मृतक के शरीर को छू सकता है। याजक अपने को अशुद्ध कर सकता है यदि मृत व्यक्ति उसकी माँ, पिता, उसका पुत्र, या पुत्री, उसका भाई,

3
לְלֵוִי לְאִישׁ הַיְתָחָה לֹא-אִשָּׁר אֵלָיו הַקְרוֹבָה הַבְּתוּלָה וְלֹאֲחָתָן
उसके-लिए पुरुष-की हुई-है नहीं- जो उसके निकट कुंवारी और-अपनी-बहन-के-लिए
H0376 H1961 H3808 H0413 H7138 H1330 H0269
:יִטְמָא
अशुद्ध-हो-सकता-है

उसकी अविवाहित बहन है। (यह बहन उसकी नजदीकी है क्योंकि उसका पति नहीं है। इसलिए याजक अपने को अशुद्ध कर सकता है, यदि वह मरती है।)

4
:לְהַחֲלוֹ אֵל-בְּעֵמִוּי יִטְמָא לֹא-
अपवित्र-होने-के-लिए अपने-लोगों-में स्वामी अशुद्ध-हो नहीं-
H1167 H3808

किन्तु याजक अपने को अशुद्ध नहीं कर सकता, यदि मरा व्यक्ति उसके दासों में से एक हो।

5
יְגַחֵהוּ לֹא-זָקָם וּפְאֵת בְּרֹאשׁוֹ קָרְחָה (יְקָרְחוּ) יְקָרְחָה] לֹא-
मुँड़े नहीं अपनी-दाढ़ी-का और-किनारा अपने-सिर-पर गंजापन गंजे-बनाएं — नहीं-
H1548 H3808 H2206 H6285 H7144 H7139 H7139 H3808
:שָׂרְטָתוֹ יִשְׂרָטוּ לֹא-וְבִשְׂרָתוֹ
कटाव काटें नहीं और-अपने-शरीर-में
H8295 H3808 H1320

"याजक को शोक प्रकट करने के लिए अपने सिर का मुण्डन नहीं कराना चाहिए। याजक को अपनी दाढ़ी के सिरे नहीं कटवाने चाहिए। याजक को अपने शरीर को कहीं भी काटनना नहीं चाहिए।

6 קְדָשִׁים וְהָיוּ לְאֹהֲלֵיהֶם וְלֹא יִתְלַלוּ שְׁמֵם אֶלֶהֶם כִּי אֶת-
 पवित्र हों अपने-परमेश्वर-के-लिए और-नहीं अपवित्र-करें नाम अपने-परमेश्वर-का क्योंकि को-
[H0853](#) [H0430](#) [H8034](#) [H3808](#) [H0430](#) [H1961](#) [H6918](#)

אֵשׁ יְהוָה לֶחֶם אֱלֹהֵיהֶם הֵם מְקַרְבִּים וְהָיוּ קְדָשׁ:
 अग्निबलि यहोवा-की रोटी अपने-परमेश्वर-की वे चढ़ाते-हैं और-हों पवित्र
[H0801](#) [H3068](#) [H3899](#) [H0430](#) [H1992](#) [H7126](#) [H1961](#) [H6944](#)

याजक को अपने परमेश्वर के लिए पवित्र होना चाहिए। उन्हें परमेश्वर के नाम के लिए सम्मान दिखाना चाहिए। क्यों क्योंकि वे रोटी और आग द्वारा भेंट यहोवा को पहुँचाते हैं। इसलिए उन्हें पवित्र होना चाहिए।

7 אִשָּׁה זָנָה וְחָלְלָהּ לֹא יִקְחוּ וְאִשָּׁה גְרוּשָׁה מֵאִשָּׁה לֹא יִקְחוּ לֵן כִּי-
 स्त्री वेश्या और-अपवित्र और-स्त्री लें नहीं लें क्योंकि- पवित्र
[H0802](#) [H2181](#) [H3808](#) [H3947](#) [H0802](#) [H1644](#) [H0376](#) [H3808](#) [H3947](#) [H6918](#)

הָוָה לְאֹהֲלֵיהֶם:
 वह अपने-परमेश्वर-के-लिए
[H0430](#) [H1931](#)

“याजक परमेश्वर की सेवा विशेष ढंग से करता है। इसलिए याजक को ऐसी स्त्री से विवाह नहीं करना चाहिए जिसने किसी के साथ यौन सम्बन्ध किया हो। याजक जिसने किसी के साथ यौन सम्बन्ध किया हो। याजक को किसी वेश्या, या किसी तलाक दी गी स्त्री से विवाह नहीं करना चाहिए।

8 וְקְדָשְׁתָּו אֲנִי יְהוָה לֹא אֶת- לֶחֶם אֱלֹהֵיהֶם תָּוָה מְקַרְבִּים קְדָשׁ יְהוָה-
 और-पवित्र-ठहरा मैं यहोवा रोटी तरे-परमेश्वर-की तुम्हें-पवित्र-करनेवाला पवित्र चढ़ाता-है वह तुम्हें-पवित्र-करनेवाला पवित्र ही-
[H6942](#) [H0589](#) [H3068](#) [H0430](#) [H1931](#) [H7126](#) [H6918](#) [H1961](#)

קְדוֹשׁ אֲנִי יְהוָה מְקַרְבִּים:
 पवित्र मैं यहोवा तुम्हें-पवित्र-करनेवाला
[H6918](#) [H0589](#) [H3068](#) [H6942](#)

याजक परमेश्वर की सेवा विशेष ढंग से करता है। इसलिए तुम्हें उसके साथ विशेष व्यवहार करना चाहिए। क्यों क्योंकि वह पवित्र चीज़ें ले चलता है। वह पवित्र रोटी यहोवा को पहुँचता है ले चलता है। वह पवित्र रोटी यहोवा को पहुँचता है और मैं पवित्र हूँ। मैं यहोवा हूँ, और मैं तुम्हें पवित्र बनाता हूँ।

9 וּבַת אִישׁ כֹּהֵן כִּי תִחַל לְזַנּוֹת אֶת- אֲבִיהָ הִיא מִחַלְלָת
 और-पुत्री याजक-की पुरुष यदि आरंभ-करे व्यभिचार-करना को- अपने-पिता वह अपवित्र-करती-है
[H1323](#) [H0376](#) [H3548](#) [H2181](#) [H0853](#) [H0001](#) [H1931](#)

בְּאֵשׁ תִּשְׂרַף: —
 आग-में जलाई-जाए
[H0784](#) [H8313](#)

“यदि याजक की पुत्री वेश्या बन जाती है तो वह अपनी प्रतिष्ठा नष्ट करती है तथा अपने पिता को कलंक लगाती है। इसलिए उसे जला देना चाहिए।

10 וְהַכֹּהֵן הַגָּדוֹל מֵאֲחָיו אֲשֶׁר- יוֹצֵק עַל- וְרֹאשׁוֹ שֶׁמֶן הַמִּשְׁחָה וּמָלָא
 और-याजक महान अपने-भाइयों-से जो- उंडेला-गया पर- उसके-सिर पर- अशुभ-का तेल अभिषेक-का और-भरा-गया
[H3548](#) [H0251](#) [H3332](#) [H0801](#) [H4390](#)

אֶת- יָדוֹ לְלִבָּשׁ אֶת- הַבְּגָדִים אֶת- רֹאשׁוֹ לֹא יִפְרָע וּבְגָדָיו לֹא
 को- उसका-हाथ पहनने-के-लिए को- वस्त्र को- अपना-सिर नहीं खुला-रखे और-अपने-वस्त्र नहीं
[H0853](#) [H3847](#) [H0853](#) [H3808](#) [H3808](#) [H3808](#) [H3808](#)

יִפְרָם:
 फाड़े
[H6533](#)

“महायाज अपने भाइयों में से चुना जाता था। अभिषेक का तेल उसके सिर उसके सिर पर डाला जाता था। इस प्रकार वह महायाजक के विशेष कर्तव्य के लिए नियुक्त किया जाता था। वह महायाजक के विशेष वस्त्र को पहनने के लिए चुना जाता था। इसलिए उसे अपने दुःख को प्रकट करने वाला कोई काम समाज में नहीं करना चाहिए। उसे अपने बाल जंगली ढंग से नहीं बिखेरने चाहिए। उसे अपने वस्त्र नहीं फाड़ने चाहिए।

או	פֶּסֶחַ	או	עוֹר	אִישׁ	יִקְרָב	לֹא	מוֹם	בּוֹ	אֲשֶׁר-	אִישׁ	כֹּל-	כִּי	18
या	लंगड़ा	या	अंधा	पुरुष	निकट-आए	नहीं	दोष	उसमें	जिस-में-	पुरुष	कोई-	क्योंकि	
	H6455		H5787	H0376	H7126	H3808				H0376	H3605		

אֲשֶׁר-: או חָרָם
अंगों-में-अधिकता या चपटी-नाकवाला
[H8311](#)

कोई व्यक्ति जिसमें कोई दोष हो, याजक का काम न करे और न ही मरे पास भेंट लाए, ये लोग याजक के रूप में सेवा नहीं कर सकते: अन्धे व्यक्ति, लंगड़े व्यक्ति, विकृत चेहरे वाले व्यक्ति, अत्यधिक लम्बी भुजा और टाँग वाले व्यक्ति।

	יָד:	שָׁבַר	או	הַגֵּל	שָׁבַר	בּוֹ	יְהוּה	אֲשֶׁר-	אִישׁ	או	19
	हाथ	टूटा	या	पैर	टूटा	उसमें	हो	जिस-में-	पुरुष	या	
	H3027	H7667		H7272	H7667		H1961		H0376		

टूटे पैर या हाथ वाले व्यक्ति,

או	יְלֶפֶת	או	גֶּרֶב	או	בְּעִינָיו	או	תְּבִלָּל	או	בָּן	או-	גִּבּוֹן	או-	20
या	दाद	या	खुजली	या	उसकी-आँख-में	या	धब्बा	या	बौना	या-	कुबड़ा	या-	
	H3217		H1618				H8400		H1851		H1384		

אוֹרֵן: אֲשָׁף
कुचला अंडकोष
[H0810](#) [H4790](#)

कुबड़े व्यक्ति, बौने, आँख में दोष वाले व्यक्ति,। खुजली और चर्म रोग वाले व्यक्ति बधिया किए गे नपुंसक व्यक्ति।

אוֹת-	לְהַקְרִיב	יָגֵשׁ	לֹא	הַכֹּהֵן	אוֹתָו	מוֹם	בּוֹ	אֲשֶׁר-	אִישׁ	כֹּל-	21
को-	चढ़ाने-के-लिए	निकट-आए	नहीं	याजक-के	हारून	दोष	उसमें	जिस-में-	पुरुष	कोई-	
	H0853	H7126	H5066	H3808	H3548	H0175	H2233		H0376	H3605	

לְהַקְרִיב:	יָגֵשׁ	לֹא	אוֹתָו	לֶחֶם	אוֹת	בּוֹ	מוֹם	יְהוּה	אֲשָׁף	
चढ़ाने-के-लिए	निकट-आए	नहीं	अपने-परमेश्वर-की	रोटी	को	उसमें	दोष	यहोवा-की	अग्निबलियां	
H7126	H5066	H3808	H0430	H3899	H0853			H3068	H0801	

“यदि हारून के वंशजों में से कोई कुछ दोष वाला है तो वह यहोवा को आग से बलि नहीं चढ़ा सकता और वह व्यक्ति विशेष रोटी अपने परमेश्वर को नहीं पहुँचा सकता।

	יֶאֱכַל:	הַקְּדָשִׁים	וּמִן-	הַקְּדָשִׁים	מִקְדָּשָׁי	אוֹתָו	לֶחֶם	22
	खाए	पवित्र-वस्तुओं	और-से-	परमपवित्र-वस्तुओं	परमपवित्र-से	अपने-परमेश्वर-की	रोटी	
	H0398	H6944		H6944	H6944	H0430	H3899	

वह व्यक्ति याजकों के परिवार से है अतः वह पवित्र रोटी खा सकता है। वह अती पवित्र रोटी भी खा सकता है।

מוֹם	כִּי-	יָגֵשׁ	לֹא	הַמִּזְבֵּחַ	וְאֵל-	יָבֵא	לֹא	הַפֶּרֶת	אֵל-	אֶרֶץ	23
दोष	क्योंकि-	निकट-आए	नहीं	वेदी-के	और-पास-	जाए	नहीं	बीचवाले-पर्दे	के-पास-	परन्तु	
		H5066	H3808	H4196	H0413	H0935	H3808	H6532	H0413	H0389	

מִקְדָּשָׁם:	יְהוּה	אָנִי	כִּי	מִקְדָּשָׁי	אֶת-	יְחַלֵּל	וְלֹא	בּוֹ
उन्हें-पवित्र-करनेवाला	यहोवा	मैं	क्योंकि	मेरे-पवित्रस्थान	को-	अपवित्र-करे	और-नहीं	उसमें
H6942	H3068	H0589		H4720	H0853		H3808	

किन्तु वह सबसे अधिक पवित्र स्थान में पर्दे से होकर नहीं जा सकता और न ही वह वेदी के पास जा सकता है। क्यों? क्योंकि उस में कुछ दोष है। उसे मेरे पवित्र स्थान को अपवित्र नहीं बनाना चाहिए। मैं यहोवा उन स्थानों को पवित्र बनाता हूँ।”

פ	יִשְׂרָאֵל:	בְּנֵי	כֹּל-	וְאֵל-	בְּנָיו	וְאֵל-	אוֹתָו	אֵל-	מוֹשֶׁה	וַיְדַבֵּר	24
—	इस्राएल-के	पुत्रों	सब-	और-से-	उसके-पुत्रों	और-से-	हारून	से-	मूसा	और-बोला	
	H3478		H3605	H0413		H0413	H0175	H0413	H4872	H1696	

इसलिए मूसा ने ये बातें हारून से, हारून के पुत्रों और इस्राएल के सभी लोगों से कही।